



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 472]
No. 472]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 26, 1978/कार्तिक 4, 1900
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 1978/KARTIKA 4, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1978

अधिसूचनाएं

का. आ. 611 (अ).—श्री ए. एस. के. के. भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 312(अ), तारीख 27 जून, 1978 द्वारा मद्रास डाक श्रम बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया था ;

और उक्त सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उक्त बोर्ड में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त रिक्त को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एल डी एम/32/77-डी-4(1)]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 26th October, 1978

NOTIFICATIONS

S.O. 611 (E).—Whereas Shri A. S. K. was appointed as a Member of the Madras Dock Labour Board by notification

753 GI/78

of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S. O. 412(E), dated the 27th June, 1978;

And whereas a vacancy has occurred in the said Board on the death of the said Member;

Now, therefore, the Central Government hereby notifies the said vacancy.

[F. No. LDM/32/77-D. IV-(i)]

का. आ. 612 (अ).—केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। श्री एम. कल्याणसुन्दरम, संसद् सदस्य को, स्वर्गीय श्री ए. के. एस. के स्थान पर मद्रास डाक श्रम बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है, और यह निदेश करती है कि भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 412-ई, तारीख 27 जून, 1968 में निम्नीलिखित संशोधन किया जाए, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद 1 के सामने "डाक कर्मकारों का प्रति-निधित्व करने वाले सदस्य" शीर्ष के नीचे, मद "श्री ए. एस. के." के स्थान पर मधु "श्री एम. कल्याणसुन्दरम, संसद्-सदस्य" रखी जाएगी।

[फा. सं. एल डी एम/32/77-डी-4(2)]

ए. पद्मानाभन, संयुक्त सचिव

(1293)

S.O. 612 (E).—In pursuance of the powers conferred by sub-section (3) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri M. Kalyanasundaram, M.P. as a member of the Madras Dock Labour Board, vice late Shri A. S. K., and directs that the following amendment shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No.

S. O. 412-E, dated the 27th June, 1978, namely :—

In the said notification under the heading "Members representing the dock workers", against item 1 for the entry "Shri A. S. K.", the entry "Shri M. Kalyanasundaram, M.P." shall be substituted.

[P. No. LDM/32/77-D, IV (ii)]
A. PADMANABAN, Jt. Secy.